



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 492 राँची, शुक्रवार

11 मई, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

2 मई, 2018

विषय:- मधुपुर नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु० 12278.18 लाख (एक सौ बाईस करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) एवं SBM के केंद्र मद से रु० 410.56 लाख (चार करोड़ दस लाख छप्पन हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रु० 5673.25 लाख (छप्पन करोड़ तिहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल रु० 6083.81 लाख (साठ करोड़ तिरासी लाख इक्यासी हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

- संख्या-SUDA/SBM/SWM/30-2015-2317-- 74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं**
- अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।
2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
 3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी MSW Rule, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
 4. OSP प्रक्षेत्र, मधुपुर नगर परिषद् में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, segregation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रथम चरण की निविदा को EPC Mode पर एवं दूसरे चरण की निविदा को लोक-निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका-1 में दर्ज है।
 5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
 6. निकाय के पास 1.99 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु अपर्याप्त है। परन्तु देवघर के पास अधिक भूमि होने के कारण भूमि भरण का कार्य देवघर में किया जायेगा।
 7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात् रु० 213.90 लाख का व्यय किया जायेगा।
 8. केन्द्रांश से कुल राशि रु० 410.56 लाख SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 35% CAPEX, @ 20% OPEX एवं @ रु० 12 प्रति व्यक्ति के अनुसार DPR बनाने हेतु दिया जाना है।
 9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किये जाने का प्रस्ताव है।
 10. SBM के राज्य योजना मद से कुल राशि रु० 5673.25 लाख दिया जाना है।
 11. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा।

तालिका - I

Madhupur Solid Waste Management - Fund Requirement		
S. No.	Particular	Amount in (Rs.) Lakh
1	Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)	12278.18
1.1	Capital Cost (CAPEX)	713.01
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	11472.47
1.3	Other Expenses (=1.3.1+1.3.2+1.3.3)	92.70
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	10.70
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	10.70
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	71.30
2	Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5980.46
2.1	by User Charges in O&M	3957.88
2.2	by Sale of Compost in O&M	1378.96
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	630.49
2.4	by Scrap Sale in O&M	13.13
3	Central Share (=3.1+3.2+3.3)	410.56
3.1	Central Share for DPR preparation @ Rs. 12 per capita	6.62
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	249.55
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 3yrs.)	154.39
4	Investment of PPP Operator	213.90
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	213.90
5	Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)	5673.25
5.1	In CAPEX	249.55
5.2	In O&M in 20 years	5337.62
5.3	In Other	86.08

12. तालिका - II

Fund Flow		
S. No.	Particulars	Amount in (Rs.) Lakhs
1.0	Total Project Cost	12278.18
2.0	Income from Project	5980.46
3.0	Fund from PP partner	213.90
4.0	Central Government Share	410.56
5.0	Total State Government Share (1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0)	5673.25

13. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग- अलग चरणों में पूर्ण की जाएगी :

क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transfer हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis पर किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय रु० 271.00 लाख होगी ।

ख. दूसरी निविदा के तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा जो

PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है। निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट प्रसंस्करण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा।

14. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में मधुपुर नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु० 12278.18 लाख (एक सौ बाईस करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) एवं SBM के केंद्र मद से रु० 410.56 लाख (चार करोड़ दस लाख छप्पन हजार) तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि रु० 5673.25 लाख (छप्पन करोड़ तिहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल रु० 6083.81 लाख (साठ करोड़ तिरासी लाख इक्यासी हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को मद संख्या-6 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।
